

89310

Jai Matu Lalley :-

किरमाना/लीनडी एक

लेखापत्र का संक्षिप्त विवरण (विद्यार्थ्य हेतु)

भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य) _____ परतना _____

प्रकार _____ संकाय _____ बी० नं० _____ खंड _____

मोहल्ला/ग्राम करवापुर क्षेत्र आउट सं. 115 मि. रुकबा 0.4030 हे० पूछे भा असके 4090 वर्ग मी० होतें हैं

सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति न०) _____

मापन की इकाई (हेक्टेयर/वर्ग मीटर) 0.4030 हे० सुख्यालम से लगभग 7 मि. मी० दूरी पर तथा

सम्पत्ति का क्षेत्रफल _____ बिस्वाम रोड के पूरब ओर लगभग 800 मी०

सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) _____ इस पर स्थित है।

अन्य विवरण (0 मीटर रोड/कार्गो इत्यादि) _____

सम्पत्ति का प्रकार - _____

प्लॉट/घर/मकान/दुकान/कृषि _____

सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुनजित नवन की स्थिति में) _____ वार्षिक किराया 40000/- का

कुल आछादित क्षेत्रफल _____ 6 रुकबा 240000/-

स्थिति-परिशिष्ट/सेवीकृतितर/अन्य _____

पेजों का मूल्यांकन _____

डोरिंग/कुआं/अन्य _____ समय दिनांक 05-09-2020 से आगामी 30 वर्ष

निर्मित क्षेत्रफल _____

निर्माण का वर्ष _____

सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है। हाँ/नहीं _____

प्रतिफल की वगतराशि _____ मासिक 210000/- स्टांप 9600/- पर

बोहदी श्री राधिका परिचय छोटा

पूरब _____ दक्षिण अडमिया मणि

खेतर खेतर नं० 114 द्वितीय पक्ष की संख्या (रक)

प्रथम पक्ष की संख्या (रक)

विशेषता का विवरण

(1) नाम श्रीलाल गेह-इ शिवशक्ति काली (1) नाम गोमावती शिवशक्ति संस्थान ग्राम गौरीपुर

पिता/पति का नाम आफि सय्यु केलान करवापुर पिता/पति का नाम मोस्ट अहमद सय्यु खेतर

लगाई पता पेरा खेतर, रक व मि० हरदोई लगाई पता खेतर, रक व मि० खेतर, रक व मि० खेतर

लगाई पता पेरा खेतर, रक व मि० खेतर लगाई पता खेतर, रक व मि० खेतर

अवसाय नीकरी, खेतर, रक व मि० खेतर अवसाय नीकरी, खेतर, रक व मि० खेतर

पहचान सं० AU/PS 7723H खेतर, रक व मि० खेतर पहचान सं० AU/PS 7723H खेतर, रक व मि० खेतर

मोबाइल नम्बर 8059702000 खेतर, रक व मि० खेतर मोबाइल नम्बर 8059702000 खेतर, रक व मि० खेतर

(2) नाम नफि हरदोई (2) नाम _____

पिता/पति का नाम _____ पिता/पति का नाम _____

लगाई पता _____ लगाई पता _____

अवसाय _____ अवसाय _____

पहचान _____ पहचान _____

मोबाइल नम्बर _____ मोबाइल नम्बर _____

मोबाइल नम्बर _____ मोबाइल नम्बर _____

(3) नाम _____ नाम _____

पिता/पति का नाम _____ पिता/पति का नाम _____

लगाई पता _____ लगाई पता _____


अवसाय _____ अवसाय _____


पहचान _____ पहचान _____

मोबाइल नम्बर _____ मोबाइल नम्बर _____

Signature
 प्रमाणक
 के लिये पं० विवेक शर्मा जी, एडवोकेट
 कल्याण नगर

Signature
 प्रमाणक
 के लिये पं० विवेक शर्मा जी, एडवोकेट
 कल्याण नगर





सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

ACC Name: MANAS MISHRA
ACC Code: UP14332104
ACC Address: Registry Office, Hardoi
Mobile: 7907440414
Jurisdiction: 22 Tehsil & Distt. Hardoi

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP28055186768470U
Certificate Issued Date	: 28-Jun-2022 10:00 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV) up14332104/HARDOI BADA/UP HRD
Unique Doc Reference	: SUBN-UPUP14332104K7940573815147U
Purchased by	: YADUNATH SINGH S O RAJARAM BY MANAGER
Description of Document	: Article 35 Lease
Property Description	: LAND SITUATED AT FARADAPUR PARGANA BANGAR TEH AND DISTT HARDOI
Consideration Price (Rs.)	: 2,40,000 (Two Lakh Forty Thousand only)
First Party	: YADUNATH SINGH S O RAJARAM BY MANAGER
Second Party	: YADUNATH SINGH S O RAJARAM BY MANAGER
Stamp Duty Paid By	: YADUNATH SINGH S O RAJARAM BY MANAGER
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 9,500 (Nine Thousand Six Hundred only)



प्रबन्धक
सी.एस.पी.डी. कार्यालय
बदायूँ-बाराँ

मन्त्र, ईडी
बदायूँ-बाराँ
कमिश्नरी, बाराँ



0000764619

किरायानामा/लीज डीड
(विद्यालय हेतु)

ई-स्टाम्प 9600/-
4%

दिनांक 05.09.2020 से आगामी 30 वर्ष
वार्षिक किराया 40,000/-रुपया
किराये के 6 गुने से औसतन किराया 2,40,000/-रुपया

हम कि श्री लाल महेन्द्र शिव शक्ति कालेज आफ एजुकेशन, फरदापुर परगना बंगर तहसील व जिला हरदोई द्वारा प्रबन्धक श्री यदुनाथ सिंह पुत्र श्री राजाराम निवासी सी-371 मोहल्ला आवास विकास कालोनी हरदोई परगना गोपामऊ तहसील व जिला हरदोई (द्वितीय पक्ष) के हैं। (प्रथम पक्ष) व गयावती शिक्षण संस्थान, ग्राम पोथे पुरवा पोस्ट बोदरा पचलाई परगना बंगर तहसील व जिला हरदोई द्वारा प्रबन्धक श्री यदुनाथ सिंह पुत्र श्री राजाराम निवासी सी-371 मोहल्ला आवास विकास कालोनी हरदोई परगना गोपामऊ तहसील व जिला हरदोई (द्वितीय पक्ष) के हैं।


जो कि निम्न सीमान्तर्गत आवासीय सम्पत्ति स्थित ग्राम फरदापुर परगना बंगर तहसील व जिला हरदोई जो भूमि नम्बर 115 नि० रकबा 0.4090 हेक्टेयर जो प्रथम पक्ष का पूर्ण भाग है (0.4090हेक्टेयर) है जिसके 4090 वर्ग मीटर होते हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि मुख्यालय से लगभग 7 कि०मी० दूरी पर तथा निकटतम मार्ग बिलग्राम रोड से पूरब ओर लगभग 800 मीटर दूरी पर स्थित है। द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि की


प्रबन्धक
श्री लाल महेन्द्र शिव शक्ति कालेज ऑफ एजुकेशन
फरदापुर


प्रबन्धक/लीज
गयावती शिक्षण संस्थान
ग्राम पोथे पुरवा

अपने विद्यालय संचालन हेतु जरूरत है और स्थलीय दृष्टि से प्रथम पक्ष की पूर्वोक्त भूमि द्वितीय पक्ष के लिए उपयोगी व लाभप्रद है। द्वितीय पक्ष द्वारा अपनी इच्छा के प्रकटन व कुल शर्तों किरायेदारी की परस्पर नें तय हो जाने पर प्रथम पक्ष ने अपनी पूर्णस्लिखित भूमि को निम्नोक्त निर्दिष्टानों-निबन्धनों व शर्तों के अधीन 40,000/-रुपया वार्षिक किराया पर किरायेदारी शुरू होने की तिथि से आगामी कुल अवधि (30 वर्ष) तक के लिए द्वितीय पक्ष को किराये पर देना तय किया है और द्वितीय पक्ष ने भी प्रथम पक्ष की उक्त वर्णित भूमि की विद्यालय के संचालन हेतु उक्त किराया व निश्चित अवधि के लिए लेना स्वीकार किया है। जिस पर द्वितीय पक्ष अपनी सुविधानुसार प्रयोग करेगा। इन दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पाबन्द रहे इसके लिए विधिवत किरावानामा का लेख लिखा जाना आवश्यक समझा। इसकी शर्तें हम उभय पक्षों के गव्य नीचे लिखी तय व निश्चित हुई हैं जिन्हें बाध्यता के विचार से इन दोनों पक्षकार सहर्ष व स्वेच्छा से निम्नवत लेखबद्ध करते हुए अपनी के साथ अपने अपने उत्तराधिकारियों को आबद्ध करते हैं। शर्तें यह हैं-

- (1) यह कि किरायेदारी दिनांक 05.09.2020ई0 से प्रारम्भ नानी व समझी आवेगी। इस तिथि से द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की ऊपर लिखित भूमि को अपने लम्हा कब्जा किरायेदारी में लेकर केवल विद्यालय संचालन हेतु ही प्रयोग करेगा परन्तु किसी भी दशा में द्वितीय पक्ष को भूमि को किसी भी पर-व्यक्ति को किराये पर उठा


 प्रथम पक्ष
 श्री राज बंस विद्यालय किराये देना करने वाले
 राजकुमार सिंह




 द्वितीय पक्ष
 किराये लेना करने वाले
 श्री राज बंस विद्यालय





प्रबन्धक
श्री का. संघ. केन्द्रिका, बसोरा, जिला. सुपौल
28/8/22



प्रबन्धक/परी
श्री का. संघ. केन्द्रिका, बसोरा, जिला. सुपौल
28/8/22

लिए किरायेदारी के पर्यवसान पर कठोरता पूर्वक अनुपालनीय होगी यह यह कि अवधि के पूर्ण होने पर भूमि खाली कराने के लिए किसी प्रकार की लिखित सूचना (नोटिस) देने की आवश्यकता नहीं होगी अतः द्वितीय पक्ष पर लाजिम व फर्ज होगा कि अवधि समाप्त होते ही वह किराये वाली भूमि को ठीक दशा में खाली कर व अपना कब्जा हटाकर भूमि पुनः प्रथम पक्ष के सथावत कब्जा व देखल मालिकाना में दे दे। ऐसा करने में द्वितीय पक्ष किसी प्रकार की कोताही व कुबेष्टा व हीला हवाला बिल्कुल नहीं करेगा।

(5) यह कि किरावानामा के सहित उभय पक्ष वार्षिक किराया का विधिवत लेनदेन करेंगे। यदि हम उभय पक्षों के मध्य आपसी सहमति बनी रहती है तो किरावानामा अग्रिम वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

इस लेख को हम उभय पक्षों को स्वीकार है इससे यह किरावानामा लिख दिया कि अनद हो व रहे। प्रस्तुत प्रलेख आज दिनांक को उभय पक्षों के द्वारा पद सुनकर समक्ष मयादान के तडरीर

प्रबन्धक
श्री का. संघ. केन्द्रिका, बसोरा, जिला. सुपौल

प्रबन्धक/परी
श्री का. संघ. केन्द्रिका, बसोरा, जिला. सुपौल







Pravin



भारत सरकार

भारतीय जनता पार्टी




सीमा

Seema

जन्म तिथि / DOB : 15/06/1981

लिंग / GENDER : FEMALE



4935 2829 1857

मेरा आधार, मेरी पहचान



Address
W/O. Yashwanth Singh C-371
Awas Vikas Colony, Hardoi
Hardoi(Gramini) Hardoi
Hardoi Uttar Pradesh -
241001

भारतीय जनता पार्टी

पिन कोड : 241001
संख्या : 4935 2829 1857



भारतीय डाक



भारतीय डाक, P.O. Box No. 1845,
Bangalore-560 301

जागतिक विनायक

भारत सरकार

SEEMA



किया गया है।

Handwritten signature

Handwritten signature

प्रबन्धक
श्री १०८ पीठ विद्यालय कलेक्टर जीम हरदोई
बस्तरा-हरदोई

प्रबन्धक, सीडी
1008 पीठ विद्यालय
कलेक्टर जीम हरदोई
बस्तरा-हरदोई



गवाह-(1) घनश्याम बाजपेई
पुत्र श्री काशीनाथ
निवासी कृष्ण नगरिया दाबा
मंदिर हरदोई परगना नगर
उहसील व जिला हरदोई
मो०नं०-9452794418

गवाह-(2) श्रीमती सीमा सिंह
पत्नी श्री यदुनाथ सिंह
निवासी सी-371 आवास
दिकास कातोनी हरदोई।
मो०नं०-8052702000

प्रारूप तैयारकर्ता-दिवाकर शुक्ल
दस्तावेज संख्या-रजिस्ट्री कार्यालय, हरदोई
अनुज्ञापित संख्या-32
विविधानम् तिथि-31.03.2024
बस्तरावेण जी तिथि-28.06.2022
जी नई फीस नं०-.....
प्रारूप तैयारकर्ता के हस्ताक्षर
Handwritten signature

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

भूमि का प्रकार (कृषि/आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक/अन्य) _____
 जिला _____ जमाका _____ बीघा कांठ _____ परगना _____
 गेहल्ला/ग्राम _____ **करदायुर श्रीम ४०५ से ११५ मिटर एकवा ०.५४५० हेक्टर** अंगर _____
 सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) _____
 मापन की इकाई (हेक्टेयर/घन मीटर) _____
 सम्पत्ति का क्षेत्रफल **०.५४५० हे.** **श्रीम ४०५ से ११५ मिटर** **अंगर** का **श्रीम भाग** **किरमानामा**
 सड़क की स्थिति (परिधि/के अनुसार) **मुख्यमार्ग से लगभग ११५ मीटर** **५४.५० वर्ग मीटर**
 अन्य विवरण (९ मीटर रोड/कार्पर इत्यादि) **इसे पर तथा किरमानामा रोड के होते हैं।**
 सम्पत्ति का प्रकार :- **४०५ मी० इसी पर स्थित है।**
 प्लॉट/प्लैट/पकान/दुकान/इ.दि _____
 सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल (बहुमण्डित भवन की स्थिति में) **कीरमानामा ५००००/-** का
 कुल आम्बुदित क्षेत्रफल _____ **६ गुना = ३०,००००/-**
 स्थिति-किनिष्ठ/सेनोफिनिष्ठ/अन्य _____
 पैदों का मूल्यांकन _____
 बोरेण/कुर्जा/अन्य **समय दिनांक ०५-०९-२०२० से आगामी ३० वर्ष**
 निर्मित क्षेत्रफल _____
 निर्माण का वर्ष _____ **४१**
 सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है। हाँ/नहीं _____
 प्रतिकूल की धनराशि _____ **गातिपत ३०००००/-** **राम १३०००/-** **रत**

प्रीति शशि
 पुरव **श्रीम ११४**
 कारार **श्रीम ११४**
 प्रधान पक्ष की संख्या (२)
 विरुद्ध का विवरण
 (१) नाम **श्रीमती सीमा सिंह**
 पिता/पति का नाम **अमर सिंह पत्नी सुदनाथ**
 स्थाई पता **सी-३११ मी० आवास विकास सिंह**
कालोनी हरदोई प्रगना गोवाइल नर-व
धरसाय मीरठोई मि० हरदोई
पहचानचैतन CRUP59231C
गोवाइल नम्बर ४०५२१०२०००
 (२) नाम _____
 पिता/पति का नाम _____
 स्थाई पता _____
 व्यवसाय _____
 पहचान _____
 गोवाइल नम्बर _____
 गोवाइल नम्बर _____
 (३) नाम _____
 पिता/पति का नाम _____
 स्थाई पता _____
 व्यवसाय _____
 पहचान _____
 गोवाइल नम्बर _____

शेख रोड
 पुरव **खज्जा मारि**
 कारार **खज्जा मारि**
 द्वितीय पक्ष की संख्या (२)
 विरुद्ध का विवरण
 (१) नाम **अमापती खिझा संस्थान, राम मोचे**
 पिता/पति का नाम **पुरबी मोस्ट कोदर कपल**
 स्थाई पता **पर-बेडार तह-३ मि० हरदोई मारा**
शेख-रुक सुदनाथ सिंह पुर राधाशम निवासी
धरसाय मीरठोई सी-३११ मी० आवास विकास सिंह
पहचानचैतन AULP57723H **हरदोई प्रगना**
गोवाइल नम्बर ४०५२१०२००० **रत-मीरठोई**
 (२) नाम _____
 पिता/पति का नाम _____
 स्थाई पता _____
 व्यवसाय _____
 पहचान _____
 गोवाइल नम्बर _____
 गोवाइल नम्बर _____
 (३) नाम _____
 पिता/पति का नाम _____
 स्थाई पता _____
 व्यवसाय _____
 पहचान _____
 गोवाइल नम्बर _____

(Signature)

(Signature)



प्रमाणित/सही
 जिला विद्यालय अंगर
 कानून/गण १० गोवा प्रकृत
 २०२०





सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

Signature: Manas Mishra
ACC Name: MANAS MISHRA
ACC Code: UP14332104
ACC Address: Registry Office, Hardoi
Mobile: 907440414
License No.: 28 Tehsil & Dist. Hardoi

e-Stamp

Certificate No.:	: IN-UP2805487341432BU
Certificate Issued Date:	: 25-Jul-2022 10:08 AM
Account Reference:	: NEWIMPACC (SV) / up14332104/ HARDOI/ SADAR/ UP/HRD
Unique Doc. Reference:	: SUBN-UPUP14332104/764054257571BU
Purchased by:	: YADUNATH SINGH S O RAJARAM BY MANAGER
Description of Document:	: Article-35 Lease
Property Description:	: LAND SITUATED AT FARADAPUR PARGANA, BANGAR TEH AND DISTT. HARDOI
Consideration Price (Rs.):	: 3,00,000 (Three Lakh only)
First Party:	: SMT SEEMA SINGH W O YADUNATH
Second Party:	: YADUNATH SINGH S O RAJARAM BY MANAGER
Stamp Duty Paid By:	: YADUNATH SINGH S O RAJARAM BY MANAGER
Stamp Duty Amount (Rs.):	: 12,000 (Twelve Thousand only)



(Handwritten mark)

Verify [here](#)

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

प्रतिपाक/नीची
सुपरी नियम संकाय
सम-संख्या: पी.पी.सी. 1/2022
2022



IID 0000764618

किरावानामा/लीज डीड
(विधालय हेतु)

ई-स्टाम 12,000/-
4%

दिनांक 05.09.2020 से आगामी 30 वर्ष
वार्षिक किराया 50,000/-रुपया
किराये के 6 मुने से औसतन किराया 3,00,000/-रुपया

हम कि श्रीमती सीमा सिंह पुत्री श्री अमर सिंह पत्नी श्री
बदुनाथ सिंह निवासीनी सी-371 मोहल्ला आवास विकास कालोनी
हरदोई परगना गोपामऊ तहसील व जिला हरदोई (प्रथम पक्ष) व
गवापती शिक्षण संस्थान, ग्राम पोथे पुरवा पोस्ट ओदरा पंचलाई
परगना बंगर तहसील व जिला हरदोई द्वारा प्रबन्धक श्री बदुनाथ सिंह
पुत्र श्री राजाराम निवासी सी-371 मोहल्ला आवास विकास कालोनी
हरदोई परगना गोपामऊ तहसील व जिला हरदोई (द्वितीय पक्ष) के हैं।

जो कि निम्न सीमान्तर्गत आवासीय सम्पत्ति स्थित ग्राम
फरदापुर परगना बंगर तहसील व जिला हरदोई जो भूमि नम्बर 115 नि०
रकबा 0.5450 हेक्टेयर जो प्रथम पक्ष का पूर्ण भाग है (0.5450हेक्टेयर)
है जिसके 5450 वर्ग मीटर होते हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि मुक्यालय से
लगभग 7 कि०मी० दूरी पर तथा निकटतम मार्ग बिलग्राम रोड से पुरुब
कीर लगभग 800 मीटर दूरी पर स्थित है। द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि की
अपने विद्यालय-संचालन हेतु जरूरत है और स्थलीय दृष्टि से प्रथम पक्ष
की पूर्वोक्त भूमि द्वितीय पक्ष के लिए उपयोगी व लाभदायक है। द्वितीय पक्ष







हम अपनी इच्छा के प्रकटन व कुल बार्ड किरायेदारी की परस्पर में छद्म हो जाने पर प्रथम पक्ष ने अपनी पूर्वलिखित भूमि को निम्नीकृत सिंचनी-सिंचनी व कर्तों के अर्थात् 50,000/-रुपया वार्षिक किराया पर किरायेदारी शुरू होने की तिथि से अगामी कुल अवधि (30 वर्ष) तक के लिए द्वितीय पक्ष को किराये पर देना एवं किया है और द्वितीय पक्ष ने भी प्रथम पक्ष की एक वर्गित भूमि की विद्यालय के संचालन हेतु एक किराया व निरिक्त अवधि के लिए लेना स्वीकार किया है। जिस पर द्वितीय पक्ष अपनी सुविधानुसार प्रयोग करेगा। इन दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह मान्य रहे इसके लिए विधिवत किरायानामा का लेख लिखा जाना आवश्यक समझा। इसकी राई इन उभय पक्षों के मध्य नीचे लिखी एवं व निरिक्त हुई है जिन्हें वास्तविक के विचार से इन दोनों पक्षों के सहर्ष व स्वेच्छा से निम्नलिखित लेखबद्ध कर्तों हुए अपनी के साथ अपने अपने उत्तराधिकारियों को आबद्ध करते हैं। राई यह है-

- (1) यह कि किरायेदारी दिनांक 05.09.2020ई0 से प्रारम्भ होगी व समझौता जायेगी। इस तिथि से द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की उपर लिखित भूमि को अपने उनका कब्जा किरायेदारी में लेकर केवल विद्यालय संचालन हेतु ही प्रयोग करेगा परन्तु किसी भी दशा में द्वितीय पक्ष को भूमि को किसी भी पर-व्यक्ति को किराये पर उठा देने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है और न होगा। इसके अतिरिक्त किरायेदार भूमि में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो









उस प्रयोजन से असंगत हो जिसके लिए उसे सम्पत्ति किरायेदारी पर दी गयी है और न ही कुल अवधि किरायेदारी के दौरान वह भूमि को अक्षय या जनैतिक प्रयोजनों के निमित्त ही प्रयोग करेगा। साथ ही किरायेदार जागबूझ कर भूमि को सार्वजनिक रूप से हतिप्रस्त नहीं करेगा और बिना भूमि स्थानी प्रथम पक्ष की लिखित अनुमति के सम्पत्ति में कोई भी ऐसा निर्माण या फिर संरचनात्मक परिवर्तन नहीं करेगा जिससे उसका मूल्य या उसकी उपयोगिता घटने या जिससे उसका निरूपण होने की सम्भावना हो।

(2) यह कि द्वितीय पक्ष आपस में तब व निश्चित सम्पत्ति का वार्षिक किराया 50,000/-रुपये प्रत्येक अंग्रेजी नाड की 1 चरौख को सुचारु रूप से प्रथम पक्ष को अदा करता रहेगा और भूमि खाली रहने की दशा में भी द्वितीय पक्ष तब किराया निश्चित रूप से चुकता करते रहने का उत्तरदायी होगा व रहेगा। द्वितीय पक्ष अपने कब्जा किरायेदारी वाली भूमि में प्रकाश व हवा की सुविधा के दृष्टिगत बिजली का कनेक्शन स्वयं लेगा जिस पर हुए बिजली खर्च के खर्च का भुगतान अकेले द्वितीय पक्ष स्वयं बराबर करता रहेगा।

(3) यह कि प्रथम पक्ष ने अपनी उपरोक्त भूमि केवल 30 वर्ष तक देव रहेगी तक के लिए ही द्वितीय पक्ष को किराये पर दी है। द्वितीय पक्ष के लिए विशेष रूप से ध्यान रखने हेतु बात जो उनके लिए किरायेदारी के पर्यवसान पर कठोरता पूर्वक अनुपातनीय







प्रधान, पीपी
कांग्रेस पार्टी, काठमांडू
काठमांडू, नेपाल





23/1/22




23/6/22


होगी यह वह कि अवधि के पूर्ण होने पर भूमि खाली कराने के लिए किसी प्रकार की लिखित सूचना (नोटिस) देने की आवश्यकता नहीं होगी अपितु द्वितीय पक्ष पर लाजिम व फर्ज होगा कि अवधि समाप्त होते ही वह किराये वाली भूमि को ठीक दशा में खाली कर व अपना कब्जा हटाकर भूमि पुनः प्रथम पक्ष के सम्भावित कब्जा व देखल मालिकाना में दे दे। ऐसा करने में द्वितीय पक्ष किसी प्रकार की कोशिश व कुशेष्ट व हीला ह्याला बिल्कुल नहीं करेगा।

- (5) यह कि किरायेनामा के रहत समय पक्ष वार्षिक किराया का गणितगत लेनदेन करेंगे। यदि हम समय पक्षों के मध्य आपसी सहमति बनी रहती है तो किरायेनामा अंतिम वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

इस लेख को इन समय पक्षों को स्वीकार है इससे यह किरायेनामा लिख दिया कि सन्द हो व रहे। प्रस्तुत प्रलेख आज दिनांक को समय पक्षों के द्वारा पत्र गुनकर समस्त गवाहों के उपस्थित



 गवाह
 दिनांक 23/1/22




 गवाह
 दिनांक 23/6/22



~~संवेदनशील जानकारी~~



सीमा
Seema
जन्म तिथि / DOB: 15/09/1981
लिंग / GENDER: FEMALE



4935 2829 1857

मेरा आधार, मेरी पहचान



~~संवेदनशील जानकारी~~

Address
1170 Radhesh Saini G-371
Sector 14/15 Colony, Haridwar
Haridwar (Gramin) Haridwar
Haridwar Uttar Pradesh -
241351

संवेदनशील जानकारी
संवेदनशील जानकारी
संवेदनशील जानकारी





संवेदनशील जानकारी

संवेदनशील जानकारी

संवेदनशील जानकारी

संवेदनशील जानकारी




 Name: [Illegible]
 Address: [Illegible]
 [Illegible]
 [Illegible]

3478 0698 5718

मेरा आधार, मेरी पहचान



 [Illegible text]
 [Illegible text]
 [Illegible text]
 [Illegible text]

3478 0698 5718



[Illegible signature]

[Illegible text]

भारत सरकार
 GOVT OF INDIA







भारत सरकार
भारतीय जनता पार्टी



श्रीमती
Seema
जन्म तिथि / DOB : 15/08/1981
लिंग / GENDER : FEMALE



4935 2829 1857

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार
भारतीय जनता पार्टी

Address
WTD Yadunath Singh C-371
Anas Vihar Colony, Haridwar
Haridwar (Gramini) Haridwar
Haridwar Uttar Pradesh -
241001

श्रीमती
Seema Yadunath Singh
WTD Yadunath Singh C-371, Anas
Vihar Colony, Haridwar
Uttar Pradesh - 241001



भारत सरकार
भारतीय जनता पार्टी



भारत
भारत सरकार
भारतीय जनता पार्टी

जाति/वर्ग
जाति/वर्ग

पहचान संख्या
Aadhaar Number

SEEMA

AM/15/08/81




 प्रमाणित प्रतिलिपि
 प्रमाणित प्रतिलिपि
 प्रमाणित प्रतिलिपि
 प्रमाणित प्रतिलिपि

3478 0606 5719

संसाधन - मेरा आधार, मेरी पहचान


 प्रमाणित प्रतिलिपि
 प्रमाणित प्रतिलिपि
 प्रमाणित प्रतिलिपि
 प्रमाणित प्रतिलिपि

3478 0606 5719

जयप्रकाश सिन्हा
 JAYPRAKASH SINGHA
 जयप्रकाश सिन्हा
 JAYPRAKASH SINGHA

भारत सरकार
 GOVT OF INDIA
 भारत सरकार
 GOVT OF INDIA





DUPLICATE

THE STATE OF
NEW YORK

OFFICE OF THE
COMMISSIONER OF SOCIAL SERVICES



NAME	DOB
ADDRESS	CITY
STATE	COUNTY
SEX	RACE
HAIR	EYES
HT	WT
HAIR	COMPLEXION



OFFICIAL COPY

NEW YORK, N.Y. 10001

DATE: 10/15/68

TIME: 10:30 AM

BY: [Signature]

FOR: [Signature]


10001

10001

किया गया है।

Handwritten signature


Handwritten signature



प्रधान/मोदी
श्री. श्री. विद्या प्रसाद
राज. प. १०, जी.पी. मार्ग
हरदोई



Handwritten signature



Handwritten signature

मवाह-(1) धनश्याम बाजपेई
पुत्र श्री काशीनाथ
निवासी कृष्ण नगरिया बाबा
नंदिर हरदोई परगना बंगर
तहसील प जिला हरदोई
मो०न०-9452794418

मवाह-(2) प्रभाकर शुक्ला
पुत्र श्री ब्रम्हानन्द शुक्ला
निवासी सरास थोक पश्चिमी
हरदोई परगना बंगर तहसील
प जिला हरदोई
मो०न०-8840088499

प्राक्तम तैयारकर्ता-दिवाकर शुक्ल
परामर्श लेखक-रविश्री कात्यायन, हरदोई
अनुमति संख्या-32
निमित्तान्त तिथि-31.03.2024
दस्तावेज की तिथि-28.06.2022
ली गई पीस रु०-.....
प्राक्तम तैयारकर्ता के प्रमाण-.....

Handwritten signature